



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2660]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21, 1940

No. 2660]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सं. 18/2015-2020

विषय: नए वाहनों के आयात हेतु विशाखापट्टनम पत्तन को शामिल किया जाना।

का.आ. 3431(अ.).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 87 की आयात नीति शर्त सं. 2 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

2. विशाखापट्टनम पत्तन को 15 पत्तनों/आईसीडी की मौजूदा सूची में जोड़ा जाता है जिनके माध्यम से आईटीसी (एचएस) 2017, की अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 87 की नीति शर्त सं. 2(II) (घ) के तहत नए वाहनों का आयात अनुमत किया जाता है। तदनुसार, अध्याय 87 की नीति शर्त सं. 2(II) (घ) में संशोधन किया जाता है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“नए वाहनों के आयात को केवल निम्नलिखित सीमाशुल्क पत्तनों के माध्यम से ही अनुमत किया जाएगा:

समुद्री पत्तन— (i) न्हावा शेवा, (ii) मुम्बई, (iii) कोलकाता, (iv) चेन्नई, (v) एन्नोर (vi) कोचीन, (vii) कटटूपल्ली, (viii) एपीएम टर्मिनल्स, पिपावाव, (ix) कृष्णापट्टनम, (x) विशाखापट्टनम

हवाई अड्डे— (xi) मुम्बई हवाई कार्गो काम्पलेक्स, (xii) दिल्ली हवाई कार्गो, (xiii) चेन्नई हवाई अड्डा; और

आईसीडी— (xiv) तेलेगांव, पुणे, (xv) तुगलकाबाद और (xvi) फरीदाबाद”

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

वर्तमान 15 पत्तनों/आईसीडी की सूची में विशाखापट्टनम पत्तन को जोड़ा जा रहा है जिससे नए वाहनों का आयात करने के लिए पत्तनों/आईसीडी की कुल संख्या 16 हो गई है।

[फा. सं. 01/89/180/14/एम-10/पीसी-2(ए)/ई-1243]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

No. 18/2015-2020

Subject: Addition of Vishakhapatnam port for import of new vehicles.

S.O. 3431(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Condition 2 to Chapter 87 of ITC(HS) 2017, Schedule 1 (Import Policy) as under:

2. Vishakhapatnam port is added to the existing list of 15 ports/ICDs through which import of new vehicles is permitted under Policy Condition 2(II) (d) of Chapter 87 of ITC (HS) 2017, Schedule 1 (Import Policy). Accordingly, Policy Condition 2(II) (d) of Chapter 87 is revised to read as under:

“The import of new vehicles shall be permitted only through the following Customs Ports:

Seaports- (i) Nhava Sheva, (ii) Mumbai, (iii) Kolkata, (iv) Chennai, (v) Ennore, (vi) Cochin, (vii) Kattupalli, (viii) APM Terminals Pipavav, (ix) Krishnapatnam, **(x) Vishakhapatnam;**

Airports- (xi) Mumbai Air Cargo Complex, (xii) Delhi Air Cargo, (xiii) Chennai Airport; and

ICDs- (xiv) Telegaon Pune, (xv) Tughlakabad & (xvi) Faridabad”

3. Effect of this notification:

Vishakhapatnam port is being added to the list of 15 existing ports/ICDs, thereby taking the total number of ports/ICDs to 16, for importing new vehicles.

[F. No. 01/89/180/14/AM-10/PC-2(A)/e-1243]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade